



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 पौष 1937 (श0)
(सं0 पटना 38) पटना, बुधवार, 13 जनवरी 2016

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं
13 जनवरी 2016

एस०ओ० 12, दिनांक 13 जनवरी 2016—बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा 93 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 में तुरत के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

1. बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 14 में संशोधन - उक्त नियमावली के नियम-14 के उप-नियम-2 के खंड-(ख) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

“(ख) राज्य के बाहर भंडार-अंतरण के मूल्य के मद्दे जो निम्न फार्मूला के अनुसार संगणित राशि होगी -

$$R_2 = [(B \times I) \div P]$$

जहां,

$R_2 =$	राज्य के बाहर भंडार अन्तरण के मद्दे रिवर्स क्रेडिट;
$B =$	राज्य के बाहर भंडार अन्तरण का कुल मूल्य;
$I =$	अनुसूची I में निर्दिष्ट मालों को छोड़कर माह में क्रय किये गये निविष्ट पर व्यवहारी द्वारा भुगताया गया निविष्ट कर; तथा
$P =$	अनुसूची I में निर्दिष्ट मालों को छोड़कर माह में क्रय किये गये निविष्ट का मूल्य।”

2. बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 17 में संशोधन - उक्त नियमावली के नियम-17 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ विलोपित की जायेंगी।

[सं० बिक्री-कर/संसोधन-19/2013-205]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

13 जनवरी 2016

एस०ओ० 13, एस०ओ० 12, दिनांक 13 जनवरी 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं० बिक्री-कर/संसोधन -19/2013-206]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 13th January 2016

S.O. 12, dated the 13th January 2016—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 93 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in Bihar Value Added Tax Rules, 2005-

Amendments

1. Amendment in rule 14 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005- Clause (b) of sub-rule (2) of Rule 14 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 shall be substituted by the following, namely-

(b) The value of stock transfers outside the state, which shall be the amount arrived at after applying the following Formula-

$$R_2 = [B \times I] \div P$$

Where,

$R_2 =$	The reverse credit on account of stock transfers outside the State;
$B =$	The total value of stock transfers outside the State;
$I =$	The input tax paid by the dealer on purchase of inputs, other than those specified in Schedule I, during the month; and
$P =$	The value of goods, other than goods specified in Schedule I of the Act, purchased during the month from within the State.

2. Amendment in rule 17 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005- Rule 17 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 and its corresponding entries shall be deleted.

[File No. Bikri kar/Sansodhan-19/2013-205]

By order of the Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 38-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>